



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2004 (माघ 18, 1925)  
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2004 (MAGHA 18, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2004

सं. 62, दिनांक 1 जनवरी 2004—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार: 76) के अधिकारी श्री शशिकांत शर्मा का स्थानांतरण होने पर उन्हें 2.12.2003 (पूर्वाह्न) से 1.12.2008 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (झारखंड: 89) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री अंजनि कुमार को 26.9.2003 (पूर्वाह्न) से 16.4.2005 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, आई आर पी एस (88) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्रीमती दीपा सेंगर को 3.11.2003 (पूर्वाह्न) से 19.1.2005 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 63, दिनांक 5 जनवरी 04—राष्ट्रपति सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

मंगल मुर्ति (एम आर-07917ए), एएमसी, 24 अप्रैल 2003।

जनमित सिंह कूलर (एम आर-07918एच), एएमसी, 24 अप्रैल 2003।

कुमार संजय तिराला (एम आर-07921एच), एएमसी, 24 अप्रैल 2003।

अनन्त वावू चिरुमामोला (एम आर-07922एल), एएमसी, 24 अप्रैल 2003।

रजनीश कुमार (एम आर-07904एच), एएमसी, 22 फरवरी 2003।

अभिजीत अवस्थी (एम आर-07905एल), एएमसी, 22 फरवरी 2003।

मनथम सेट्टी रनजीत कुमार (एम आर-07906एन), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
अर्पित गर्ग (एमआर-07907डब्ल्यू), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
सुदीप प्रकाश (एमआर-07908वाई), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
रिशी द्विवेदी (एमआर-07909एफ), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
प्रिन्स अरविन्द (एमआर-07910डब्ल्यू), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
(कु.) सीरिश एन्नी (एमआर-07911वाई), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
सुयश गोयल (एमआर-07912एफ), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।  
ज्योति कुमार सिन्हा (एमआर-07913के), एएमसी,  
22 फरवरी 2003।

एम श्रीवास्तवा  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 64, दिनांक 7 जनवरी 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर  
सहर्ष नियुक्त करते हैं।

#### नियमित सेना

##### (अल्प सेवा आयोग)

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का  
छः मास का समय जोकि 08 मार्च 2003 से शुरू हुआ था, पूरा कर  
लिया है। उनको उसी तिथि 08 मार्च 2003 से लेफ्टि के पद पर पाँच  
वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग सेनानुदेश 1/93 के अंतर्गत प्रदान किया  
जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 08 मार्च 2001 से वेतन तथा  
उन्नति के लिए सेनानुदेश 1/5/94 से संशोधित के अंतर्गत प्रदान किया  
जाता है।

नाम, एस एस नं., आर्म/सर्विस

दत्ता निजितेश विभास (39975एक्स), ईएमई।  
तपन मिश्रा (39976ए), इंजीनियर।  
पिपरेवार विशाल तुकाराम (39977एच), इंजीनियर।  
विजय कुमार एन (39979एन), ईएमई।  
नीरज ददवाल (39980एच), ईएमई।  
सुशील कुमार पात्रा (39981एल), सिगनल।  
अजय कुमार शर्मा (39982एन), इंजीनियर।  
बरनवाल रिषि राज घनश्याम (39983डब्ल्यू), इंजीनियर।  
सूरज रमेशराव भूरे (39984वाई), इंजीनियर।  
देवासिष सिन्हा (39985एफ), ईएमई।

तुषार-जौहरी (39986के), सिगनल।

फजलूल बारी सरवार (39987एम), इंजीनियर।

गगनदीप सिंह (39988पी), ईएमई।

नहुष मालवीय (39989एक्स), इंजीनियर।

इतकरकार महेन्द्रा विश्वनाथ (39990एम), ईएमई।

रचित आहलूवालिया (39991पी), सिगनल।

गुरशरन प्रीत सिंह (39992एक्स), सिगनल।

राष्ट्रपति निम्नलिखित महिला अधिकारियों को लेफ्टि के पद पर  
सहर्ष नियुक्त करते हैं।

#### (नियमित सेना)

##### (अल्प सेवा आयोग)

निम्नलिखित महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन)  
का छः मास का समय जोकि 08 मार्च 2003 से शुरू हुआ था, पूरा  
कर लिया है। उनको उसी तिथि 08 मार्च 2003 से लेफ्टि के पद पर  
पाँच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत  
प्रदान किया जाता है।

नाम, डब्ल्यू एस नं., आर्म/सर्विस

पारुल लिंगवाल (00739ए), सिगनल।

शालिनी (00740पी), एओसी।

स्वेता चौहान (00741एक्स), एओसी।

सुनीता बिष्ट (00742ए), इंजीनियर।

बिन्दू शर्मा (00744एल), सिगनल।

ज्योत्सना मलहोत्रा (00745एन), इन्ट।

जे अश्वनी (00749के), एओसी।

गरिमा जोशी (00750वाई), एईसी।

थोमस मैरी एलैक्जेंडर (00752के), एईसी।

पूर्णिमा कुमारी (00753एम), एओसी।

बबीता लक्ष्मण (00755एक्स), एओसी।

एक्स मरकलाइन (00760एच), एओसी।

स्वाति सकपाल (00763डब्ल्यू), ईएमई।

जिजि यू के (00764वाई), ईएमई।

निशा जोशी (00768पी), सिगनल।

रेबेक्का ललझारझोवि छककुआक (00770एम), एईसी।

सीमा मिश्रा (00771पी), एईसी।

रितु मिश्रा (00775एल), सिगनल।

अंशिता मालवीय (00776एन), एससी।

प्रीना वर्मा (00778वाई), इंजीनियर।

रीना झा (00783के), एओसी।

मीनाक्षी (00788एच), इन्ट।

अमृत पाल कौर (00789एल), इंजीनियर।

सोनिया (00790ए), एईसी।

पुनिता (00791एच), ईएमसी।

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) लेफ्टि के पद पर 16 सितम्बर 2002 से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत 08 मार्च 2003 से प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 08 मार्च 2001 से वेतन तथा उन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

नाम, डब्ल्यू एस नं., आर्म/सर्विस

रूपिन्द्र कौर (00736एम), सिगनल।

हन्ना पौड्लोज (00737पी), सिगनल।

अमनदीप कौर (00738एक्स), सिगनल।

मोनिका भार्गवा (00743एच), ईएमई।

फ्रान्सिस चैरियल कैरोलीन राज जोसफ (00746डब्ल्यू), सिगनल।

पूनम सावन्त (00747वाई), सिगनल।

डी कोस्टा एल्सी (00748एफ), इंजीनियर।

पी वी पुनीता (00751एफ), ईएमई।

दीपिका मल्होत्रा (00754पी), ईएमई।

सावन्त धनश्री सम्पतराव (00756ए), इंजीनियर।

पाण्डे नन्दनी रामचन्द्रा (00758एल), ईएमई।

आरती (00759एन), ईएमई।

कतकवार शिबानी जयन्त (00761एल), ईएमई।

गुप्ता दीपशिखा हरस्वरूप (00762एन), इंजीनियर।

मुन्डले कीर्ति किशोर (00766के), ईएमई।

देशमुख शीतल सतीशचन्द्रा (00767एम), इंजीनियर।

शीतल लाड़ (00769एक्स), इंजीनियर।

अंशु देव सिंह (00772एक्स), ईएमई।

शर्मा सपना विरेन्द्रमोहन (00774एच), सिगनल।

रवतिंग वैशाली एकनाथराव (00777डब्ल्यू), सिगनल।

विद्या कुमारी (00779एफ), सिगनल।

अर्चना गुंसाई (00781वाई), सिगनल।

अंजु तिवारी (00782एफ), सिगनल।

पचुन्डे रचना प्रकाश (00784एम), सिगनल।

सुरभी शर्मा (00785पी), इंजीनियर।

वी दीपा रेड्डी (00787ए), सिगनल।

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग का छः मास का समय जोकि 08 मार्च 2003 से शुरू हुआ था, लेफ्टि के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 08 मार्च 2003 से अल्प सेवा आयोग

लेफ्टि के पद पर पाँच वर्ष के लिए विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

नाम, एस एस नं., आर्म/सर्विस

रतन बहादुर (39994एच), मैक।

अभिषेक द्विवेदी (39995एल), एसी।

हेमन्त सिंह ठकुर (39996एन), आर्टी।

शमशेर सिंह पन्नु (39997डब्ल्यू), आर्टी।

हितेश कौशिक (39998वाई), एससी।

करन सिंह यादव (39999एफ), इन्फैन्ट्री।

मनोज कुमार द्विवेदी (40000एच), आर्टी।

जौन विनुथ डी, 'कोस्ट' (40001डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री।

संदीप संगवान (40003डब्ल्यू), एसी।

राहुल राज्यागुरू (40004वाई), इन्फैन्ट्री।

संदीप कुमार (40005एफ), एओसी।

निशान्त करकी (40006के), एससी।

अजीत एलक्स (40009एक्स), इन्फैन्ट्री।

सुन्जय कुमार (40010एम), एडीए।

राम दयाल व्यास (40011पी), आर्टी।

नीरज कपूर (40012एक्स), इंजीनियर।

नवीन कुमार त्यागी (40014एच), एडीए।

विजय कुमार (40015एल), आर्टी।

विश्वाजीत दास (40016एन), इन्फैन्ट्री।

विशाल शर्मा (40017डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री।

अरुण गुलाटी (40018वाई), आर्टी।

भौसले अजय उल्हास (40019एफ), इन्फैन्ट्री।

जयदीप शियोरन (40020डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री।

अमरिन्द्र सिंह वालिया (40021वाई), एसी।

प्रदीप धीमान (40022एफ), आर्टी।

राय सिद्धार्थ कुमार अमलकुमार (40023के), इंजीनियर।

एच लेलिथ बाबू (40024एम), इन्फैन्ट्री।

प्रदीप कुमार (40025पी), इन्फैन्ट्री।

अमदानी अफजल हबीब (40026एक्स), इंजीनियर।

रमित हसीजा (40027ए), एडीए।

विकास चन्द्र (40028एच), इन्फैन्ट्री।

राम कृष्णा राजू (40029एल), एससी।

अभिक भट्टाचार्य (40030ए), इन्फैन्ट्री।

हेमन्त जी (40031एच), इंजीनियर।	मनपाल सिंह धनौया (40065डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री।
गोपालाकृष्णन के (40032एल), इन्फैन्ट्री।	विवेक पारीक (40066वाई), इन्फैन्ट्री।
मयूर रतूरी (40033एन), ईएमई।	मोहित जोशी (40067एफ), इन्फैन्ट्री।
गुरिन्द्र पॉल सिंह गगनेझा (40034डब्ल्यू), ईएमई।	अनील जाखड़ (40069एम), इन्फैन्ट्री।
अम्बुज बल्लवा साहू (40035वाई), इन्फैन्ट्री।	ओम प्रकाश (40070एफ), इन्फैन्ट्री।
के जे थोमस (40036एफ), आर्टी।	अभिषेक सिंह (40071के), ए ओ सी।
जगपाल सिंह (40037के), मैक।	दिनेश टी (40072एम), इन्फैन्ट्री।
विचाल सिंह (40038एम), आर्टी।	अनुपम पटेल (40073पी), इन्फैन्ट्री।
कस्बा रतनादीप विजय (40039पी), सिगनल।	सुमित कुमार भान (40074एक्स), ए डी ए।
के कवि (40040के), आर्टी।	अमरदीप सिंह (40075ए), ए एस सी।
सिम्मार दुग्गल (40041एम), एओसी।	अभिनव डिमरी (40076एच), ए सी।
अभिषेक कुमार सिंह (40042पी), इन्फैन्ट्री।	सचिन कौशल (40077एल), इन्जीनियर।
सिद्धार्थ (40043एक्स), एसी।	कमलजीत सिंह लव्गना (40078एन), इन्जीनियर।
कुनाल शर्मा (40044ए), इन्फैन्ट्री।	सरताज मेहता (40079डब्ल्यू), आर्टी।
संगसोंगवऊ विसूनामल (40045एच), इन्फैन्ट्री।	राहूल शर्मा (40080एल), ए ओ सी।
राज कुमार शर्मा (40046एल), इन्फैन्ट्री।	पंकज जसवाल (40081एन), इन्जीनियर।
विश्वानाथ तिवारी (40047एन), इन्फैन्ट्री।	गौरव ग्रेवाल (40082डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री।
नकुल देव सिंह स्लाथिया (40048डब्ल्यू), एओसी।	आशिम प्रभाकर (40083वाई), ए डी ए।
राजा पॉल (40049वाई), इन्फैन्ट्री।	गोपालकृष्णा जे (40084एफ), ई एम ई।
कुलविन्द्र सिंह (40050एन), एएससी।	श्रीराम गनपति (40085के), मैक।
योगेश गुलेरिया (40051डब्ल्यू), आर्टी।	ईसमाईल सी (40086एम), इंजीनियर।
सैफ केजिलवाश (40052वाई), एसी।	तनुज लाम्बा (40087पी), आर्टी।
पंकज कुमार (40053एफ), आर्टी।	अमित शर्मा (40088एक्स), इंजीनियर।
अलोक प्रताप सिंह (40054के), आर्टी।	अमित चौहान (40089ए), इन्फैन्ट्री।
विजय राव (40055एम), एएससी।	रितू राज सिंह (40090पी), एसी।
सिद्धार्थ विजय विजय सेषान (40056पी), इन्फैन्ट्री।	सूराज एस (40091एक्स), इन्फैन्ट्री।
दिलेर सिंह जाखड़ (40057एक्स), आर्टी।	अभिलाष कोचूकलिकेल (40092ए), आर्टी।
नितेश बैसनेट (40058ए), इन्फैन्ट्री।	सुशील लखनपाल (40093एच), ई एम ई।
राजीव यादव (40059एच), आर्टी।	रनदीप मलिक (40094एल), इन्फैन्ट्री।
कुशवन्त मालविया (40060एक्स), एओसी।	अमरिन्द्र सिंह (40095एन), इन्फैन्ट्री।
धर्मजोत सिंह (40061ए), इन्फैन्ट्री।	मनदीप शेरगिल (40097वाई), इन्फैन्ट्री।
विपिन रावत (40062एच), इन्फैन्ट्री।	सिद्धार्थ जदली (40098एफ), एसी।
बमर दीप रावश (40063एल), इन्ट।	जोगिन्द्र शेखावत (40099के), एएससी।
पदमवीर सन्दू (40064एन), मैक।	अरनान मित्रा (40100एन), इन्फैन्ट्री।

अरविन्द चौहान (40101डब्ल्यू), आर्टी।

जयदीप सिंह (40102वाई), एसी।

प्रवीण छेत्री (40104के), इन्फैंट्री।

अभिलाष वर्गीज (40105एम), इन्फैंट्री।

जितेन्द्र चतुर्वेदी (40106पी), आर्टी।

विशाल थापा (40107एक्स), सिगनल।

ध्रुव कुमार मिश्रा (40108ए), एओसी।

शशीकरन देशपाण्डे (40109एच), इंजीनियर।

कुमारा राजा एम एस (40110एक्स), एएससी।

अलोक कुमार दास (40111ए), ईएमई।

कोचरेकर अमेया विलास (40112एच), एडीए।

प्रशान्त ननदल (40113एल), एएससी।

अन्कुर सागर (40114एन), ईएमई।

तनमया शर्मा (40115डब्ल्यू), आर्टी।

जे जोनी डेमिनिक (40116वाई), आर्टी।

टी प्रकाश (40117एफ), इंजीनियर।

दीपक चन्दन एम (40120एफ), ईएमई।

मोहम्मद असलम नूर (40121के), इन्फैंट्री।

नितिन सयाल (40122एम), आर्टी।

अनुराग शर्मा (40123पी), इन्फैंट्री।

प्रधान अश्विनी हेमचन्द्रा (40124एक्स), आर्टी।

श्रीवास उदयकुमार कामेश्वर प्रसाद (40125ए), सिगनल।

अनवर एच खान (40126एच), इन्फैंट्री।

मयूर ध्वाज नथावत (40128एन), एसी।

अभिनय मिश्रा (40129डब्ल्यू), आर्टी।

दीपक चन्द्रा जोशी (40130एल), इन्फैंट्री।

विवेक सोनी (40131एन), आर्टी।

कुनाल झम्ब (40132डब्ल्यू), इन्फैंट्री।

मानव अग्निहोत्री (40133वाई), एडीए।

पुन्यासलोका पाण्डा (40134एफ), इन्फैंट्री।

औब्रे एल वर्ड (40135के), एएससी।

शाजन जौन जोसफ (40136एम), इन्फैंट्री।

चन्द्रावंश शर्मा (40137पी), एओसी।

विजय सहगल

लै. कर्नल

सह सेना सचिव/एम एस 8 वी

नेवी ब्रॉच

रक्षा मंत्रालय - एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 65, दिनांक 1 जनवरी 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित व्यक्तिगत सहायकों को उनके नाम के आगे दर्शायी गयी तिथि से दिनांक 31.12.2003 तक अथवा नियमित चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तक के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में अस्थायी आधार पर निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500--10,500/-) नियुक्त करते हैं:-

(क) श्रीमती बीना कपूर : 05.11.2003

(ख) श्री सतनाम सिंह : 20.11.2003

उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपि सेवा नियमावली, 1970 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:-

(क) ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दास गुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु सेना मुख्यालय

सं. 66, दिनांक 1 जनवरी 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से अनुभाग अधिकारी, (ग्रुप 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500--10,500/-) नियुक्त करते हैं:-

(क) श्री शैलेन्द्र कुमार सक्सेना : 15 जनवरी 2003

(ख) श्री विकास कुमार जैफ : 28 फरवरी 2003

सन्तोष दास गुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

नेवी ब्रॉच

नौसेना मुख्यालय

सं. 67, दिनांक 1 जनवरी 2004--राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री जे एस जोशी, निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतनमान रु. 14300-400-18300 की नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2003 से 03.04.2004 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी की सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 25.08.2003 से 24.02.2004 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10.500/- में नियुक्त करते हैं।

### वायु सेना मुख्यालय

सं. 68, दिनांक 01.01.2004--राष्ट्रपति सहर्ष, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 की धारा 7(8) के अधीन निम्नलिखित स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान, 6500-10500, की नियुक्तियों को दिनांक 25 अगस्त 2003 से दिनांक 24 फरवरी 2004 तक की अवधि के लिए अथवा उनके सेवा निवृत्त होने के समय अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

क्र. सं. नाम सर्वश्री/श्रीमती

1. यशराज सिंह
2. मंजीत सिंह
3. रामसिंह वर्मा
4. आर के पी पांडेय
5. पी एस बिष्ट
6. यू एस लटवाल
7. राम प्रकाश
8. जे पी स्वामी
9. प्रेम चन्द
10. एम एम आर भण्डारी
11. राजिन्दर प्रसाद
12. श्रीमती सी के राय
13. अजीत सिंह इन्दौरा
14. राम सरूप
15. रतन सिंह
16. आत्म प्रकाश
17. आर एल भाटिया
18. इन्द्र पाल
19. श्रीमती इन्दु बालाजी
20. मंजीत सिंह
21. मोहन लाल
22. यू पी मोहनन
23. ए के सिन्हा
24. श्रीमती आई डी मूरजानी
25. ओम प्रकाश
26. सन्तोष कुमार कौशिक
27. पी एन राय

1. श्री मान सिंह
2. श्री भजन लाल
3. श्री आर एल पोत्रा
4. श्री डी वी आर्या
5. श्री हेत प्रकाश
6. श्री डी एन प्रभाकर
7. श्री एम एल गुप्ता
8. श्री एन के आहूजा
8. श्री वाई सी बजाज
10. श्री वी एल चौपड़ा
11. श्री पी एल मेन्दीरता
12. श्री मामन चन्द
13. श्री वी पी अरोड़ा
14. श्री के के शर्मा
15. श्री बी पी सिंह
16. श्री वी के दास
17. श्री एन सी साहू
18. श्री मोहन लाल
19. श्री एस बनर्जी
20. श्री वेद प्रकाश
21. श्री डी एस शौकीन
22. श्री एन एस मदान
23. श्री रूप चन्द
24. श्री महावीर सिंह
25. श्री रघुवंश बिहारी
26. श्रीमती पी एल ओबराय
27. श्री एस के तुगनैत
28. श्री यू एस भिन्डवार
29. श्री एन आर खन्ना
30. श्री खुशाल चन्द
31. श्री एल एम जोशी
32. श्री जगमोहन स्वरूप
33. श्री रमेश चन्दर
34. श्रीमती विद्या कटारिया
35. श्री रामकिशन
36. श्री डी के भुटानी
37. श्री चन्द्र प्रकाश
38. श्री कैलाश चन्द
39. श्रीमती स्मिता आहूजा
40. श्री टी टॉन सिंह
41. श्री भगवान सहाय
42. श्री रविन्द्र साह
43. श्री माम चन्द
44. श्री जी सी कन्सल
45. श्री नरायण सिंह
46. श्री आर के सहनी
47. श्री रिचपाल सिंह

ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

28. रंजीत सिंह
29. आर सी गौतम
30. ओमप्रकाश
31. कृष्ण लाल
32. बनारसी दास
33. श्रीमती सन्तोष लता
34. श्रीमती राज रानी
35. रमेश चन्द्र
36. कुमारी के राजम्मा
37. गौतम मालो
38. कोमल राम यादव
39. श्रीमती उषा झुंडेजा
40. दुलीचन्द
41. सुभाष चन्द
42. कन्हैया लाल
43. सुन्दर लाल
44. राज सिंह
45. राजेन्द्र प्रसाद
46. श्रीमती उषा किरण
47. हरीश कुमार
48. आर एल गुप्ता
49. राजेश दीक्षीत
50. एस पी दरगन
51. एस आर वेनुगोपाल
52. नफे सिंह
53. कृष्ण राम
54. श्रीमती मधु बाला
55. श्रीमती शीला देवी
56. राम चरन
57. श्रीमती निर्मल बिरदी
58. सत्य नारायण
59. रिस पाल
60. आई एस बरामनिया
61. बिमल घोष

62. श्रीमती मैना नथानी
63. मनमोहन सूरी
64. ओम प्रकाश सिंघल

2. इनकी नियुक्ति बिल्कुल काम चलाक आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### बलसेना विभाग/एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं. 69, दिनांक 2 जनवरी 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

हवलदार से नायब सूबेदार झाँवर (एम टी) के रैंक में

सधितानंद सिंह (सं. 14530152पी अब जेसी-757823एल), 19 मई 2003/19 मार्च 2003\*।

पाटिल हनुमन्ता नायक (सं. 14531968एल अब जेसी-758161ए), 01 सितम्बर 2003।

महेन्द्रा प्रसाद विश्वास (सं. 14532672आई अब जेसी-758166आई), 01 सितम्बर 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

पी सी त्रिपाठि (सं. 14554666एल अब जेसी-758062एल), 01 अगस्त 2003।

पबित्रा मोहन नायक (सं. 14554675एम अब जेसी-758063ए), 01 अगस्त 2003।

सुभाष चन्द्रा रौत (सं. 14554790एफ अब जेसी-758064एफ), 01 अगस्त 2003।

अंजन कुमार रौत (सं. 14554768एफ अब जेसी-758066एन), 01 अगस्त 2003।

ए विजया कुमार (सं. 14554750एल अब जेसी-758067एल), 01 अगस्त 2003।

राम प्रकाश शर्मा (सं. 14548133एम अब जेसी-758152आई), 01 सितम्बर 2003।

जगेश्वर सिंह (सं. 14555150पी अब जेसी-758149आई), 01 सितम्बर 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

अजीत प्रताप सिंह (सं. 14542812एन अब जेसी-758140के), 01 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*।

हरि प्रकाश सिंह (सं. 14543384एम अब जेसी-758142के), 01 अगस्त 2003।

राजेन्द्र सिंह (सं. 14543664ए अब जेसी-758146एल), 01 सितम्बर 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार अरमोर के रैंक में

राज नारायण महतो (सं. 14545271एच अब जेसी-758069एफ), 01 अगस्त 2003।

डी के राठी (सं. 14545564एन अब जेसी-758145एच), 01 सितम्बर 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

नारायण राम (सं. 14529873एम अब जेसी-757556पी), 01 मार्च 2003/24 नवम्बर 2002\*।

राम कृष्ण सिन्हा (सं. 14531569एफ अब जेसी-757940डब्ल्यू), 21 मई 2003/01 अप्रैल 2003\*।

विनय कुमार कटियार (सं. 14531603डब्ल्यू अब जेसी-758087के), 21 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*।

तपन कुमार मोहन्ती (सं. 14531682डब्ल्यू अब जेसी-758128एच), 01 अगस्त 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार इलक्ट (एम वी) के रैंक में

आलम सिंह बिष्ट (सं. 14535557के अब जेसी-757778के), 17 अप्रैल 2003/01 मार्च 2003\*।

सुबे सिंह (सं. 14535792एच अब जेसी-757941वाई), 01 जून 2003।

देवानंद ठाकुर (सं. 14676145एम अब जेसी-757942एफ), 21 जून 2003/01 जून 2003\*।

भगवान दास (सं. 14536164एम अब जेसी-757942एफ), 26 जुलाई 2003/01 जून 2003\*।

आशिष कुमार कुन्डु (सं. 14535945एफ अब जेसी-757943के), 08 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*।

हवलदार से नायब सूबेदार राखार के रैंक में

मधुसूदन नायर पी आर (सं. 14534171एक्स अब जेसी-758046ए), 01 जून 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (जी सी ई) के रैंक में

साजित कुमार वी (सं. 14539540एच अब जेसी-758045एक्स), 01 जून 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर एफ डी के रैंक में

सुदीप्ता कुमार रोय (सं. 14538228वाई अब जेसी-758047एच), 03 जुलाई 2003/01 नवम्बर 2002\*।

हवलदार से नायब सूबेदार वेलडर के रैंक में

विश्वनाथ रोय (सं. 14535707पी अब जेसी-758044पी), 22 जुलाई 2003/01 जून 2003\*।

गुलाब सिंह (सं. 14533962डब्ल्यू अब जेसी-758048एल), 21 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*।

मोतीलाल थापा (सं. 14540334एन अब जेसी-758091एम), 08 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

कुमार बहादुर गुरंग (सं. 14540218एन अब जेसी-758090के), 01 अगस्त 2003।

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

नारायण सेट्टी एच एन (सं. 14547720एल अब जेसी-758252के), 15 जुलाई 2003/20 मार्च 2003\*।

हवलदार से नायब सूबेदार अपहोल के रैंक में

प्रशान्ता बिश्वास (सं. 14551909ए अब जेसी-757956एफ), 06 जून 2003/01 फरवरी 2003\*।

बहादुर राम मसहरी (सं. 14559714के अब जेसी-758089पी), 01 अगस्त 2003।

के देवेन्द्रा सिंघा (सं. 14559742डब्ल्यू अब जेसी-758042के), 09 जुलाई 2003/01 जून 2003\*।

हवलदार से नायब सूबेदार रिफ्रजरेटर मैकेनिक के रैंक में

कूना रामारव (सं. 14589121एम अब जेसी-758041एफ), 08 जुलाई 2003/01 जून 2003\*।

हवलदार से नायब सूबेदार मैशिनियट के रैंक में

ई एच अन्सारी (सं. 14676324एम अब जेसी-758137के), 20 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

एच एम टी से नायब सूबेदार टैक ए वेहीकल के रैंक में

देबी प्रसाद (सं. 14580670एल अब जेसी-757963एक्स), 10 जून 2003/01 जून 2003\*।

सी धर्म राज (सं. 14578760एन अब जेसी-757924वाई), 01 जून 2003।

रामेश्वर (सं. 14579314एन अब जेसी-757926के), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

जगन्नाथ द्विवेदी (सं. 14579562पी अब जेसी-757928पी), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

राजेन्द्रा बहादुर सिंह (सं. 14576874ए अब जेसी-757919एन), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

धर्मेन्द्रा सिंह (सं. 14579506डब्ल्यू अब जेसी-757927एम), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

रमेश कुमार (सं. 14578624एक्स अब जेसी-757921एल), 01 जून 2003।

सत्यवीर सिंह (सं. 14580712एम अब जेसी-757964ए), 01 जून 2003।



देशाई शास्कांत सदाशिव (सं. 14581947एल अब जेसी-758006वाई), 19 जून 2003/01 जून 2003\*।

चिकावेलि अरुण शिवराम (सं. 14580313एच अब जेसी-757931पी), 04 जून 2003/01 जून 2003\*।

शंकर यादव (सं. 14571719पी अब जेसी-757905एन), 17 मई 2003/02 मार्च 2003\*।

बर्नाबस ए (सं. 14580285एफ अब जेसी-757930एम), 16 जून 2003/01 जून 2003\*।

रामराज ए (सं. 14578779एम अब जेसी-757979एच), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

चेरुकार साम्ब शिव राव (सं. 14582348एक्स अब जेसी-758007एफ), 30 जून 2003/01 जून 2003\*।

देवेन्दर सिंह (सं. 14580150ए अब जेसी-757929एक्स), 02 जून 2003/01 जून 2003\*।

राम पाल (सं. 14581138एल अब जेसी-758005डब्ल्यू), 16 जून 2003/01 जून 2003\*।

सी पेरियानायगम (सं. 14581951एन अब जेसी-758110एम), 01 अगस्त 2003।

एस मुनिकन्नन (सं. 14569114पी अब जेसी-758100एच), 05 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

अरुण भुयान (सं. 14578709एन अब जेसी-757923डब्ल्यू), 11 जून 2003/01 जून 2003\*।

विनोद कुमार (सं. 14565072डब्ल्यू अब जेसी-758097एन), 02 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*।

राम सुख केलर (सं. 14571091एक्स अब जेसी-758102एन), 01 अगस्त 2003।

हुक्मा राम साहू (सं. 14573807एक्स अब जेसी-758105एफ), 01 अगस्त 2003।

उन्नी पी डी (सं. 14577259पी अब जेसी-758108पी), 04 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

सुरेन्द्रा सिंह (सं. 14580630के अब जेसी-758109एक्स), 01 अगस्त 2003।

अरविन्द कुमार शर्मा (सं. 14571311डब्ल्यू अब जेसी-758103डब्ल्यू), 02 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

निर्मलेन्दु बक्षी (सं. 14568804एम अब जेसी-758099वाई), 01 अगस्त 2003।

मही पाल सिंह (सं. 14571744एन अब जेसी-758104वाई), 05 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

शरत चन्द्र बेहरा (सं. 14567750के अब जेसी-758098डब्ल्यू), 01 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*।

विजय कुमार यादव (सं. 14570470एफ अब जेसी-758101एल), 02 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

चन्द्रन वी (सं. 14573849डब्ल्यू अब जेसी-758106के), 02 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

करणम वेंकट रमण (सं. 14577475एच अब जेसी-758107एम), 02 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

कृष्ण कुमार वी टी (सं. 14558258एक्स अब जेसी-758096एल), 19 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*।

एच एम टी के नायब सूबेदार टेक इन्सट के रैंक में

चन्द्र पाल सिंह (सं. 14602908एच अब जेसी-757934एच), 23 मई 2003/13 फरवरी 2003\*।

रमेश सी (सं. 14603698ए अब जेसी-758037वाई), 01 जुलाई 2003।

प्रेम सुन्दर शर्मा (सं. 14603966वाई अब जेसी-758038एफ), 01 जुलाई 2003।

गणेश चन्द्रा (सं. 14603938के अब जेसी-758073के), 24 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*।

रमेश चन्द्रा दुहून (सं. 14603984एफ अब जेसी-758079एल), 01 अगस्त 2003।

अनिल कुमार त्रिपाठी (सं. 14603988एक्स अब जेसी-758080ए), 01 अगस्त 2003।

मालवेन्द्र सिंह बहि (सं. 14603992ए अब जेसी-758081एच), 01 अगस्त 2003।

रेशम सिंह (सं. 14603970एफ अब जेसी-758078एच), 01 अगस्त 2003।

दीन दयाल कुमार (सं. 14603993एच अब जेसी-758082एल), 01 अगस्त 2003।

जगबीर (सं. 14600959एक्स अब जेसी-758180एल), 07 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*।

\*पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है।

एस. के. खुराना

अवर सचिव

सं. 70, दिनांक 5 जनवरी 2003--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एस आर कामतिकार (एम आर-2929एल)--01.04.2003 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.03.2003 से दी जाती है।

एस सी सूद (एम आर-2273एफ)--07.07.2003 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.05.2003 से दी जाती है।

ब्रिगेडियर (समकक्ष) से एयर वाईस मार्शल के पद पर

पी के सरकार (एम आर-2551के) (वा. से. 26480के)--01.01.2002।

एन के मनचन्दा (एम आर-3897ए) (वा. से. 26481)--01.02.2002।

कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर

वी पी पठनिया (एम आर-3385एन)--18.08.2002 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03.08.2002 से दी जाती है।

बी के सिंह (एम आर-4457वाई)--12.02.2003 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04.01.2003 से दी जाती है।

ले. कर्नल से कर्नल के पद पर

एस श्रीनिवासन (एम आर-3701एफ)--08.04.2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 26.11.2003 से दी जाती है।

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

अभीराम वर्मा (एम आर-07145एन) ए एम सी, 27 मार्च 2003।

जे देबनाथ (एम आर-06018एम) ए एम सी, 12 अगस्त 2003।

पी बी मुखर्जी (एम आर-06136ए) ए एम सी, 08 सितम्बर 2003।

कैप्टन से मेजर के पद पर

आलोक वशिष्ठ (एम आर-07171एक्स) ए एम सी, 29 जून 2003।

मेजर के पद पर

नवीन कुमार शर्मा (एम एस-13757एफ) एम आर-07943एफ), ए एम सी, 14 अक्टूबर 2001।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

सौरभ बंदोपाध्याय (एम एस-13400एल) (एम आर-07932पी), 09 फरवरी 2003।

हरवन्दन कौर बेदी (एम एस-13419के) एम आर-07934ए), ए एम सी, 05 जनवरी 2001।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

चन्द्र प्रकाश झा (एम एस-13151ए) एम आर-07938डब्ल्यू), ए एम सी, 30 सितम्बर 2000।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अगस्त 2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राजीव कुमार (एम एस-13928एच) एम आर-07935एच), ए एम सी, 29 जुलाई 2002।

प्रसंजीत देव (एम एस-13179एक्स) एम आर-07939वाई), ए एम सी, 07 अक्टूबर 2000।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 मई 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

इन्दरमनी पाण्डे (एम आर-07560पी) ए एम सी, 05 फरवरी 2002।

(क.) राखी नेगी (एम आर-7797एम) ए एम सी, 02 अगस्त 2003।

समीर के आर पोल (एम आर-07799एक्स) ए एम सी, 02 अगस्त 2003।

रेनुका अग्रवाल (एम आर-07763वाई) ए एम सी, 04 मार्च 2003।

मुनिष सूद (एम आर-07802एम) ए एम सी, 02 अगस्त 2003।

मलेला जयाशेखर (एम आर-07811एन) ए एम सी, 02 अगस्त 2003।

(क.) निधि कालरा (एम आर-07698के) ए एम सी, 04 मार्च 2003।

नलिन भाटिया (एम आर-07798पी) ए एम सी, 02 अगस्त 2003।

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

अमीत कुमार (एम आर-07839एन) (25583), ए एम सी, 01 अक्टूबर 2003।

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

मेघा रमेश कुलकर्णी (एम एस-13153एच) (एम आर-7929पी), ए एम सी, 30 सितम्बर 1999।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

(फि. अफसर से फ्लाइट लेफ्टि के पद पर (परख परख))

एम.डी.सुदान (एम आर-07333एल), (ए एफ-25574) ए एम सी, 23 जून 2000।

फ्लाइट लेफ्टि के पद पर

अबनिष भद्रबाज (एम आर-07542एम), (ए एफ-26465) ए एम सी, 05 फरवरी 2002।

दिशांत त्यागी (एम आर-07639एक्स), (ए एफ-26477) ए एम सी, 16 जुलाई 2002।

अभिजित श्रीकुमार (एम आर-07649एफ), (ए एफ-26478) ए एम सी, 16 जुलाई 2002।

आशुतोष आर्य (एम आर-07523एफ), (ए एफ-26463) ए एम सी, 05 फरवरी 2002।

अमित अग्रवाल (एम आर-07396एम), (ए एफ-26035एल) ए एम सी, 15 फरवरी 2001।

(क.) रंजनी मोरे (एम आर-07477एक्स), (ए एफ-26044) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

बिक्रम त्रेहन (एम आर-007466एल), (ए एफ-26042) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

विवेक कुमार (एम आर-07524के), (ए एफ-26464) ए एम सी, 05 फरवरी 2002।

प्रज्ञा शर्मा (एम आर-07469वाई), (ए एफ-26043) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

रितु मेहता (एम आर-7478ए), (ए एफ-26045) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

कुमार अभिषेक (एम आर-07465एच), (ए एफ-26041) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

ए के गर्ग (एम आर-07464ए), (ए एफ-26040) ए एम सी, 13 जुलाई 2001।

एम श्रीवास्तव  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 71, दिनांक 6 जनवरी 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में :--

एस के पारीक आई सी-31655 आई, 01 दिसम्बर 2000।

पी एस रविन्द्रनाथ आई सी-31712 इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000।

पी माधवन आई सी-31728 इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000।

अमूल मोहन आई सी-34066 इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000।

शशांक मेहता आई सी-34120 इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000।

पी एस गांगुली आई सी-34135 इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000।

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में :--

आई सी-40190 एस के पोसीना एडीआई, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39385 एस जे वी दत्त इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2001।

आई सी-41441 पी माधुर सिग्नल्स, 18 जून 2001।

आई सी-41837 ए वल्ल ई एम ई, 20 दिसम्बर 2001।

आई सी-40152 आर मल्होत्रा, ई एम ई, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40260 डी सिंह इन्ट, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40148 टी वी ए कुमार इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-37821 पी सी नैथानी इन्फैन्ट्री, 12 नवम्बर 2001।

आई सी-39933 डी साममल एडीआई, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-37850 एस मलिक एसी, 12 नवम्बर 2001।

आई सी-37854 आर माधुर एसी, 12 नवम्बर 2001।

आई सी-40051 पी एस डिल्लन एसी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39595 ओ पी चौधरी एसी, 13 जून 2001।

आई सी-40201 एस खुराना एसी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39884 टी के पाल ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40230 एन खान ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40142 जे सिंह सिग्नल्स, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40225 एस पोल इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39912 के सिंह सिग्नल्स, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40255 आर के सिंह ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40187 के सिंह ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40127 एस सिंह इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-37806 एम एन बाबु सिग्नल्स, 12 नवम्बर 2001।

एस एल-02749 एन एन जे नायर एस एल (एक्यू एम), 27 जुलाई 2001।

एस एल-02745 एल एस अम्भायन एस एल (क्यू एम), 27 जुलाई 2001।

आई सी-40103 आर एस शेखो एसी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40117 ए जे सिंह ए सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39852 आई मोहहन ए ई सी, 13 जून 2001।

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान) :--

आई सी-40246 टी के कौण्डल इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-40210 एस थामस इंजीनियर्स, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39856 पी के मदान ए ई सी, 13 जून 2001।

आई सी-39892 के प्रसाद इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-39923 ए कान्त इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-41831 के एन वी वी विजय कुमार इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2001।

आई सी-39674 एल के वीरा ए एस सी, 13 जून 2001।

आई सी-39878 एस एस गौराया ए एस सी, 19 दिसम्बर 2001।

आई सी-41834 आर के शर्मा सिग्नल्स, 20 दिसम्बर 2001।

एस एल-02840 एस पी सैनी ए पी टी सी, 27 जुलाई 2001।

एस एल-02815 के सिंह--ए पी टी सी, 27 जुलाई 2001।

शशि शंकर सिन्हा  
उपनिदेशक  
डी ए एम एस 8 ए

#### वायु सेना मुख्यालय

सं. 72, दिनांक 01 जनवरी 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित सहायक निदेशकों (राजभाषा), (ग्रुप ख राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में उनके नाम के आगे अंकित तिथि से आगले आदेश जारी होने तक अथवा 30 मार्च 2004 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रेड 1, (ग्रुप ख राजपत्रित) वेतनमान 7500-12000 के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं:--

श्रीमती सुशीला पालीवाल, 24 अक्टूबर 2003।

श्री जे सी सेठी, 27 अक्टूबर 2003।

उपरिलिखित अधिकारियों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:--

क. यह पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।

ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

राष्ट्रपति सहर्ष, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में, श्री रामाकृष्णन के वी, वै.स. को दिनांक 23 जून 2003 पूर्वा. से निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित) वेतनमान 6500-10500 के पद पर, पदोन्नत करते हैं।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 73 तारीख 7 जनवरी 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं।

#### भारतीय वायुसेना

##### वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में:--

एस. के. चटर्जी (12441) वैइ (यॉ), 09 अप्रैल 2001।

एस. बी. पराशर (12442) वैइ (यॉ), 09 अप्रैल 2001।

के. एस. यादव (12444) वैइ (यॉ), 09 अप्रैल 2001।

आर. पी. बत्रा (11199) वैइ (वै), 09 अप्रैल 2001।

जे. पी. गुलाटी (रिटायर्ड), (10281) वैइ (वै), 17 सितम्बर 2001।

ए. के. खन्ना (रिटायर्ड), (10401) वैइ (वै), 17 सितम्बर 2001।

वी. एन. कत्याल (रिटायर्ड), (11905) वैइ (वै), 01 नवम्बर 2001।

एस. जी. अलीमाती (11912) वैइ (वै), 01 नवम्बर 2001।

आर. पी. सिंह (12639) वैइ (यॉ), 03 दिसम्बर 2001।

एन. एस. रविन्द्रन (रिटायर्ड) (12614) वैइ (वै), 04 फरवरी 2002।

वी. एस. सुन्दर (12618) वैइ (यॉ), 04 फरवरी 2002।

##### प्रशासनिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

एन. के. कपिला (13638) प्रशा. 19 जनवरी 2001/01 नवम्बर 2001 (एन.एस.)

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एच. सी. श्रीवास्तव (13888) प्रशा. और ग्रुप कैप्टन एन. आर. अरोड़ा (13887) प्रशा. के बीच में आयेगा)।

ए. के. अधिकारी (13889) प्रशा. 19 दिसम्बर 2001।

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एन. के. अरोड़ा (13887) प्रशा. और ग्रुप कैप्टन ए. जावेद (14386) प्रशा. के बीच में आयेगा)।

##### उड़ान शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में:--

ए. के. तिवारी, वी एस एम (12194) उ (पा), 01 अगस्त 2003।

##### मौसम विज्ञान शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में:--

आर. पी. शिवहरे (14424) मौसम, 01 जून 2003।

जी. पी. शर्मा (14427) मौसम, 01 जून 2003।

एस. के. रैना (14862) मौसम, 01 जुलाई 2003।

##### प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर के मूल रूप में:--

ए. के. गुप्ता (14743), प्रशासनिक शाखा, 01 अक्टूबर 2000।

ए. के. मैनी (15912) प्रशासनिक शाखा, 01 अप्रैल 2001।

(इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर एस. के. चक्रवर्ती (15910) प्रशासन शाखा के बाद में आयेगा)।

एच लतीफ (15749) प्रशासनिक शाखा, 01 अगस्त 2001।

ए. कुमार (15905) प्रशासनिक शाखा, 01 अगस्त 2001।  
 एच. त्यागी (16099) प्रशासनिक शाखा, 01 अगस्त 2001।  
 आर. माथर (16100) प्रशासनिक शाखा, 01 अगस्त 2001।  
 आर. गनेश (16103) प्रशासनिक शाखा, 01 अक्टूबर 2001।  
 एस. के. शर्मा (16106) प्रशासनिक शाखा, 01 अक्टूबर 2001।  
 एस. वी. पई (16107) प्रशासनिक शाखा, 01 अक्टूबर 2001।  
 ए. दास (16109) प्रशासनिक शाखा, 01 नवम्बर 2001।  
 एन. भारद्वाज (16110) प्रशासनिक शाखा, 01 नवम्बर 2001।  
 एस. के. पारीह (16111) प्रशासनिक शाखा, 16 जनवरी 2002।  
 सी. एस. हवलदार (16256) प्रशासनिक शाखा, 09 फरवरी 2002।  
 पी. के. सिंह (16259) प्रशासनिक शाखा, 01 मार्च 2002।  
 एस. एन नायडू (16262) प्रशासनिक शाखा, 01 मार्च 2002।  
 ए. के. पात्रा (16263) प्रशासनिक शाखा, 01 अप्रैल 2002।  
 एस. मजूमदार (16264) प्रशासनिक शाखा, 01 मई 2002।  
 एच. के. दीमन (16266) प्रशासनिक शाखा, 01 मई 2002।

संतोष कुमार शुक्ला  
 उप निदेशक कार्मिक अधिकारी

सेना शाखा

सं. 74 दिनांक 5 जनवरी 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी का दिनांक 21 अक्टूबर 2002 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा संशोधन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

राजीव कुमार (एम. एस. 13928-एच) (एम. आर. 7935-एच) ए एम सी 29 जनवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 29 जुलाई 1998 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने का पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

हरवन्दन कौर बेदी (एम एस-13419-के) (एम. आर.-7934-ए) ए एम सी 05 जनवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 05 जनवरी 1997 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (साइकियाट्रि) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 दिसम्बर 2000 में

प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 04.12.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा के कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

प्रसजीत देव (एम एस-13179-एक्स) (एम आर-07932-वाई) ए एम सी 07-04-1997 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 07-10-1996 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के 06 महीने में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 24.09.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा के कमीशन से मुक्त होने की अनुमति करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

नवीन कुमार शर्मा (एम एस-13757-एफ) (एम आर-07943-एफ) ए एम सी 14-10-1997

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25-03-2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

सौरभ बंदोपाध्याय (एम एस-13400-एस) (एम आर-07932-पी) ए एम सी 09-02-1999

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12-01-2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

चन्द्र प्रकाश झा (एम एस-13152-ए) (एम आर-07938-डब्ल्यू) ए एम सी 30-09-1996

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13-12-1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट पद पर

मेघा रमेश कुलकर्णी (एम एस-13153-एच) (एम आर-07929-पी) (ए एफ. 23481) ए एम सी 30-09-1996 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 30-09-1994 से हो जाएगी। इसमें एम एस (ई.एन.टी.) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के

लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23-09-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर (परख पर)

(श्रीमती) रत्ना बुलुसु (एम एस-13235-एल) (एम आर-07135-के) (ए एफ-18199-एफ) ए एम सी, 24-08-1996 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 28-01-1984 से, (उसमें पिछली पुनर्वेतन सेवा के लिए 10 वर्ष 28 दिन और स्नातकोत्तर ज्येष्ठता तथा अस्पताल नियुक्ति के लिए 2 वर्ष 06 महीने की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05-07-2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।) पूर्व प्रदत्त ज्येष्ठता की अवधि किसी भी दशा में पिछले वेतन से नहीं दी जाएगी।

एम श्रीवास्तव  
ब्रिगेडियर, उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 75, दिनांक 01 जनवरी 04--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री एस एन त्रिपाठी की अधिवाषिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30-11-2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 76, दिनांक 07 जनवरी 04--निम्नलिखित अधिकारियों को जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

मेजर बेअन्त सिंह, आई सी-42744, इंजीनियर्स

बेईज्जती के साथ सेवा से बर्खास्तगी--03 दिसम्बर 2001।

कैप्टन सचिन पुरी, आई सी-52497, एडीए।

(अ) प्रोन्नति हेतु तीन वर्षों की सेवा का समपहरण--25 जनवरी 2003।

(ब) पेंशन हेतु पांच वर्षों की पूर्व सेवा का समपहरण--25 जनवरी 2003।

(स) कड़ी भर्त्सना की जाए--25 जनवरी 2003।

लेफ्टिनेंट पाटिल पारादीपकुमार बी, एस एस-39455, आर्टी।

(अ) प्रोन्नति हेतु एक वर्ष की सेवा का समपहरण--24 जनवरी 2003।

(ब) पेंशन हेतु एक वर्ष की पूर्व सेवा का समपहरण--24 जनवरी

2003।

(स) बड़े हुए वेतन हेतु एक वर्ष की पूर्व सेवा का समपहरण--24 जनवरी 2003।

(द) कड़ी भर्त्सना की जाए--24 जनवरी 2003।

करम सिंह वर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8-सी

सेना शाखा

सं. 77, दिनांक 07-01-04--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष प्रदान करते हैं:--

शुद्धिपत्र

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

1. नम्बर 6649601 एक्स हवलदार/लिपिक गुरदीप सिंह, ए.एस.सी. (पूर्ति) एस.एल.-4736 के, क्यू एम को स्थायी आयोग (विशेष सूची) के अन्तर्गत वरिष्ठता का दिनांक 13 जुलाई 2002 से न्यायालय के आदेशानुसार लेफ्टिनेंट का पद 1989 कोटा के अन्तर्गत दिया गया था, जिसे 1989 कोटा के क्रम सहयोगियों के साथ 13 जुलाई 2002 से बदलकर 12 अप्रैल 90 कर दी गई है। तदनुसार उनकी वरिष्ठता नम्बर 6909872 एल हवलदार बी. एल. एन. प्रसाद, ए ओ सी (एस एल-3937 डब्ल्यू सेकेण्ड लेफ्टिनेंट, क्यू एम) के नीचे और नम्बर 104903 ए दफादार माली राम नुनिया के (आर्म्ड कोर्पस, एस एल-3937 डब्ल्यू सेकेण्ड लेफ्टिनेंट, क्यू एम) के ऊपर 1989 की रिक्तियों में शामिल किया जाता है जोकि राजपत्र अधिसूचना संख्या 459 दिनांक 02 जून 1995 को प्रकाशित किया गया।

2. उपरोक्त अधिकारी का नाम राजपत्र अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 22 मार्च 2003 को प्रकाशित हुआ, से हटया जाता है।

विजय सहगल  
ले. कर्नल, सह सेना सचिव/एम.एस. 8-बी

वायु शाखा

सं. 78, दिनांक 07 जनवरी 04--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

शुद्धिपत्र

विंग कमांडर ए. कुमार (15905) प्रशासनिक शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

विंग कमांडर के मूल रूप में जो प्रविष्टियां जोकि 01-04-01 से हैं तथा जिन्हें 10-08-02 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, उन्हें पूरी तरह हटा दिया जाए।

एस. के. शुक्ला  
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 बी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th Feb 2004

No. 62 dated 01 Jan 04—The President is pleased to appoint Shri Kant Sharma, 1AS (BH:76) on transfer from the Government of Bihar, as Joint Secretary, Department of defence, Ministry of Defence w.e.f. 2/12/03(F/N) upto 1/12/2008 or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Anjani Kumar, 1AS (JH:89), Deputy Secretary Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 26.9.2003 (FN) upto 16.4.2005, or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Smt. Deepa Sengar, IRPS (88), Deputy Secretary Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 3.11.2003 (FN) up to 19.1.2005, or until further orders whichever is earlier.

V. SARASWATHY  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No 63 dated 5.1.2004—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be Lt. (ON PROB)

Mangal Murti (MR-07917A), AMC, 24 Apr 2003

Janmeet Singh Kulaar (MR-07918-H), AMC, 24 Apr 2003

Nirala Sanjay Kumar (MR-07921H), AMC, 24 Apr 2003

Ananth Babu chirumamilla (MR-7922L), AMC 24 Apr 2003

Rajnish Kumar (MR-07904H), AMC, 22 Feb 2003

Abhijeet Avasthi (MR-07905L), AMC, 22 Feb 2003

Mandhamshetty Ranjith Kumar (MR-7906N), AMC, 22 Feb 2003

Arpit Garg (MR-07907W), AMC, 22 Feb 2003

Sudeep Prakash (MR-07908Y), AMC, 22 Feb 2003

Rishi Dwivedi (MR-07909F), AMC, 22 Feb 2003

Prince Arvind (MR-07910W), AMC, 22 Feb 2003

Km. Sirisha Anne (MR-07911Y), AMC, 22 Feb 2003

Suyash Goel(MR-07912F), AMC, 22 Feb 2003.

Jyoti Kumar Sinha (MR-07913K), AMC, 22 Feb 2003.

M. SRIVASTAVAS  
Brig  
Dy. DGAFMS

No. 64 dated 7.1.04—The president is pleased to make the following appointment.

## REGULAR ARMY

(Short Service Commission)

The undermentioned officers of SSC (Tech)-18 Course have been granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 1/93 wef 08 Mar 2003. Subsequently, on successful completion of training their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 08 Mar 2003. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 08 Mar 2001 under SAI 1/94 as amended:—

Dutta Bijitesh Bibhas (SS-39975X), EME

Tapan Mishra (SS-39976A), Engr

Piprewar Vishal-Tukaram (SS-39977H), Engr

Vijay Kumar N (SS-39979N), EME

Neeraj Dadwal (SS-39980H), EME

Sushil Kumar Parta (SS-39981L), SIGS

Ajay Kumar Sharma (SS-39982N), Engr

Baranwal Rishi Raj Ghanshyam (SS-39983W), Engr

Suraj Ramesh Rao Bhure (SS-39984Y), Engr

Debasish Sinha (SS-39985F), EME

Tushar Johari(SS-39986K), Sigs

Fajlul Bari Sarahaar (SS-39987M), Engr

Dagandeep Singh (SS-39988P), EME

Nahush Malviya (SS-39989X), Engr

Itkarkar Mahendra Vishwanath (SS-39990M), EME

Rachit Ahluwalia (SS-39991P), Sigs

Gursharan Preet Singh (SS-39992X), Sigs

To be Lt

The undermentioned lady officers of WSES (O)-21 Course have completed Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 08 Mar 2003. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 08 Mar 2003 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended:—

Parul Lingwal (WS-00739A), Sigs  
 Shalini (WS-00740P), AOC  
 Sweta Chauhan (WS-00741X), AOC  
 Sunita Bisht (WS-00742A), Engrs  
 Bindu Sharma (WS-00744L), Sigs  
 Jyotsna Malhotra (WS-00740P), Int  
 J Aswani (WS-00749K), AOC  
 Garima Joshi (WS-00750Y), AEC  
 Thomas Mary Alexander (WS-00752K), AEC  
 Purnima Kumari (WS-00753M), AOC  
 Babita Laxman (WS-00755X), AOC  
 X Mercyline (WS-00760H), AOC  
 Swati Sakpal (WS-00763W), EME  
 Jiji UK (WS-00764Y), EME  
 Nisha Joshi (WS-00768P), Sigs  
 Rebecca Lalzarzovi Chhakchhuak (WS-00770M), AEC  
 Seema Mishra (WS-00771P), AEC  
 Ritu Mishra (WS-00775L), Sigs  
 Anshita Malviya (WS-00776N), ASC  
 Preena Verma (WS-00778Y), Engr  
 Reena Jha (WS-00783K), AOC  
 Meenakshi (WS-00788H), Int  
 Amrit Pal Kaur (WS-00789L), Engr  
 Sonia (WS-00790A), AEC  
 Punita (WS-00791H), EME

The undermentioned lady officers are granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92 with effect from 16 Sep 2002. On successful completion of their training, their Special Short Service Commission on probation is confirmed i.e. they are granted Short Service Commission for five years w.e.f. 08 Mar 2003. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay w.e.f. 08 Mar 2001 for possession of technical qualification under the above AI.

Rupinder Kaur (WS-00736M), Sigs  
 Hanna Paulose (WS-00737P), Sigs  
 Amandeep Kaur (WS-00738X), Sigs  
 Monika Bhargava (WS-00743H), EME  
 Francies Cheryl Caroline Raj Joseph (WS-00746), Sigs  
 Poonam Sawant (WS-00747Y), Sigs

D'Costa Elsie (WS-00748F), Engr  
 P V Puneeta (WS-00751F), EME  
 Deepika Malhotra (WS-00754P), EME  
 Sawant Dhanshri Sampatrao (WS-00756A), Engr  
 Pandey Nandidi Ramachandra (WS-00758L), EME  
 Arti (WS-00759N), EME  
 Katakwar Shibani Jayant (WS-00761L), EME  
 Gupta Deepshikha Har Swaroop (WS-00762N), Engr  
 Mundle Kirti Kishore (WS-00766), EME  
 Deshmukh Shital Satishchandra (WS-00767M), Engr  
 Sheetal Lad (WS-00769X), Engr  
 Anshu Dev Singh (WS-00772X), EME  
 Sharma Sapna Virendramohan (WS-00774), Sigs  
 Khating Vaishali Eknathrao (WS-00777W), Sigs  
 Vidhya Kumari (WS-00779F), Sigs  
 Archana Gusain (WS-00781Y), Sigs  
 Anju Tiwari (WS-00782F), Sigs  
 Pachunde Rachana Prakash (WS-00784M), Sigs  
 Surabhi Sharma (WS-00785P), Engr  
 V Deepa Reddy (WS-00787A), Sigs

The undermentioned officers of SSC (NT)-75 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 08 Mar 2003. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 08 Mar 2003 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended:—

Ratan Bahadur (SS-39994H), Mech  
 Abhishek Dwivedi (SS-39995L), AC  
 Hemant Singh Thakur (SS-39996N), Arty  
 Shamsher Singh Pannu (SS-39997W), Arty  
 Hitesh Kaushik (SS-39998Y), ASC  
 Káran Singh Yadav (SS-39999F), Inf  
 Manoj Kumar Dwivedi (SS-40000H), Arty  
 John Vinuth D'Costa (SS-40001L), Inf  
 Sandeep Sangwan (SS-40003W), AC  
 Rahul Rajyaguru (SS-40004Y), Inf  
 Sandeep Kumar (SS-40005F), AOC  
 Nishant Karki (SS-40006K), ASC  
 Ajit Alex (SS-40009X), Inf  
 Sunjay Kumar (SS-40010M), ADA  
 Ram Dayal Vyas (SS-40011P), Arty



Neeraj Kapoor (SS-40012X), Engr  
 Navin Kumar Tyagi (SS-40014H), ADA  
 Vijay Kumar (SS-40015L), Arty  
 Biswajit Das (SS-40016N), Inf  
 Vishal Sharma (SS-40017W), Inf  
 Arun Gulati (SS-40018Y), Arty  
 Bhonsle Ajay Ulhas (SS-40019F), Inf  
 Jaideep Sheoran (SS-40020W), Inf  
 Amrinder Singh Walia (SS-40021Y), AC  
 Pradeep Dhimman (SS-40022F), Arty  
 Roy Siddharthakumar Amalkumar (SS-40023K), Engr  
 H Lelish Babu (SS-40024M), Inf  
 Pradeep Kumar (SS-40025P), Inf  
 Amdani Afzal Habib (SS-40026X), Engr  
 Ramit Hasija (SS-40027A), ADA  
 Vikas Chander (SS-40028H), Inf  
 Ram Krishna Raju (SS-40029L), ASC  
 Abhik Bhattacharya (SS-40030A), Inf  
 Hemanth G (SS-40031H), Engr  
 Gopalakrishnan K (SS-40032L), Inf  
 Mayur Raturi (SS-40033N), EME  
 Gurinder Paul Singh Gagneza (SS-40034W), EME  
 Ambuj Ballava Sahu (SS-40035Y), Inf  
 K J Thomas (SS-40036F), Arty  
 Jagpal Singh (SS-40037K), Mech  
 Vichal Singh (SS-40038M), Arty  
 Kaswa Ratnadeep Vijay (SS-40039P), Sigs  
 K Kavi (SS-40040K), Arty  
 Simmar Duggal (SS-40041M), AOC  
 Abhishek Kumar Singh (SS-40042P), Inf  
 Siddharth (SS-40043X), AC  
 Kunai Sharma (SS-40044A), Inf  
 Sangsongbou Wisunamal (SS-40045H), Inf  
 Raj Kumar Sharma (SS-40046L), Inf  
 Vishwanath Tiwari (SS-40047N), Inf  
 Nakul Dev Singh Slathia (SS-40048W), AOC  
 Raja Paul (SS-40049Y), Inf  
 Kulvinder Singh (SS-40050N), ASC  
 Yogesh Guleria (SS-40051W), Arty

Saif Qezilbash (SS-40052Y), AC  
 Pankaj Kumar (SS-40053F), Arty  
 Alok Pratap Singh (SS-40054K), Arty  
 Vijay Rao (SS-40055M), ASC  
 Siddhartha Vijay Vijay Seshan (SS-40056P), Inf  
 Diler Singh Jakhar (SS-40057X), Arty  
 Nitesh Basnet (SS-40058A), Inf  
 Rajeev Yadav (SS-40059H), Arty  
 Khushwant Malveeya (SS-40060X), AOC  
 Dharm Jot Singh (SS-40061A), Inf  
 Vipin Rawat (SS-40062H), Inf  
 Amar Deep Ravash (SS-40063L), Int  
 Padamvir Sandu (SS-40064N), Mech  
 Manpal Singh Dhanoa (SS-40065W), Inf  
 Vivek Pareek (SS-40066Y), Inf  
 Mohit Joshi (SS-40067F), Inf  
 Anil Jakhar (SS-40069M), Inf  
 Om Prakash (SS-40070F), Inf  
 Abhishek Singh (SS-40071K), AOC  
 Dinesh T (SS-40072M), Inf  
 Anupam Patel (SS-40073P), Inf  
 Sumit Kumar Bhan (SS-40074X), ADA  
 Amardeep Singh (SS-40075A), ASC  
 Abhinav Dimri (SS-40076H), AC  
 Sachin Kaushal (SS-40077L), Engr  
 Kamaljeet Singh Lavana (SS-40078N), Engr  
 Sartaj Mehta (SS-40079W), Arty  
 Rahul Sharma (SS-40080L), AOC  
 Pankaj Jaswal (SS-40081N), Engr  
 Gaurav Grewal (SS-40082W), Inf  
 Ashim Prabhakar (SS-40083Y), ADA  
 Gopal Krishna J (SS-40084F), EME  
 Sriram Ganapathy (SS-40085K), Mech  
 Ismail C (SS-40086M), Engr  
 Tanuj Lamba (SS-40087P), Arty  
 Amit Sharma (SS-40088X), Engr  
 Amit Chauhan (SS-40089A), Inf  
 Ritu Raj Singh (SS-40090P), AC  
 Sooraj S (SS-40091X), Inf

Abhilash Kochukaleeckel (SS-40092A), Arty  
 Sushil Lakhanpal (SS-40093H), EME  
 Randeep Malik (SS-40094L), Inf  
 Amarinder Singh (SS-40095N), Inf  
 Mandeep Shergill (SS-40097Y), Inf  
 Siddharth Jadli (SS-40098F), AC  
 Joginder Shekhawat (SS-40099K), ASC  
 Arnab Mitra (SS-40100N), Inf  
 Arvind Chauhan (SS-40101W), Arty  
 Jaideep Singh (SS-40102Y), AC  
 Praveen Chhetri (SS-40104K), Inf  
 Abhilash Varghese (SS-40105M), Inf  
 Jitendra Chaturvedi (SS-40106P), Arty  
 Vishal Thapa (SS-40107X), SIGS  
 Dhruv Kumar Mishra (SS-40108A), AOC  
 Shashikiran Deshpande (SS-40109H), ENGR  
 Kumara Raja MS (SS-40110X), ASC  
 Alok Kumar Das (SS-40111A), EME  
 Kocharekar Ameya Vilas (SS-40112H), ADA  
 Prashant Nandal (SS-40113L), ASC  
 Ankur Sagar (SS-40114N), EME  
 Tanmaya Sharma (SS-40115W), Arty  
 J Jhonny Dominic (SS-40116Y), Arty  
 T, Prakash (SS-40117F), Engr  
 Deepak Chandran M (SS-40120F), EME  
 Mohammad Aslam Noor (SS-40121K), Inf  
 Nitin Sayal (SS-40122M), Arty  
 Anuraag Sharma (SS-40123P), Inf  
 Pradhan Ashwin Hemchandra (SS-40124X), Arty  
 Shriwas Udaykumar Kameshwarprasad (SS-40125A),  
 SIGS.  
 Anwar H. Khan (SS-40126H), Inf  
 Mayur Dhawaj Nathawat (SS-40128N), AC  
 Abhinav Mishra (SS-40129W), Arty  
 Deepak Chandra Joshi (SS-40130L), Inf  
 Vivek Soni (SS-40131N), Arty  
 Kunal Jhamb (SS-40132W), Inf  
 Manav Agnihotri (SS-40133Y), ADA  
 Punyasloka Panda (SS-40134F), Inf

Aubrey L Bird (SS-40135K), ASC

Shajan John Joseph (SS-40136M), Inf.

Chandravansh Sharma (SS-40137P), AOC

VIJAY SAHGAL

Lt Col AMS 8B

#### NAVY BRANCH

##### Integrated HQrs-MOD (Navy)

No. 65 dated 1. 1.2004—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretaries (Group 'B' Gazetted) in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on temporary promotion basis w.e.f. the date mentioned against their names for a period upto 31.12.2003 or availability of regular incumbents, whichever is earlier—

(a) Smt. Veena Kapoor—05 Nov 2003

(b) Shri Satnam Singh—20 Nov 2003

2. Appointment of the above mentioned officers as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers Service Regulations, 1970 on the conditions mentioned below:—

(c) The appointment is purely on temporary basis and can be terminated without notice for administrative reasons.

(d) They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority.

SANTOSH DASGUPTA

Dy. Chief Administrative Officer (A)

#### AIR HEADQUARTERS

No. 66, dated 1st Jan. 2004.—The President is pleased to appoint the following individuals as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-10500 in the AFHQ Civil Service with effect from the date mentioned against each:—

S.No.	Name	wef
1.	Shailendra Kumar Saxena	15 Jan 2003
2.	Vikash Kumar Jeph	28 Feb 2003

SANTOSH DASGUPTA

Dy. Chief Administrative Officer

#### NAVAL BRANCH

##### NAVAL HEADQUARTERS

No. 67, dated 1st Jan. 2004.—The President is pleased to extend the appointment of Shri JS Joshi, Director of

AFHQ Civil Service (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001, for a period from 03.10.2003 to 03.04.2004 or till regular incumbents become available or till such time the officers retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 25.08.2003 to 24.02.2004 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier:—

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Sh. Man Singh         | 2. Sh. Bhajan Lal       |
| 3. Sh. RL Photra         | 4. Sh. DV Arya          |
| 5. Sh. Het Prakash       | 6. Sh. DN Prabhakar     |
| 7. Sh. ML Gupta          | 8. Sh. NK Ahuja         |
| 9. Sh. YC Bajaj          | 10. Sh. BL Chopra       |
| 11. Sh. LP Mandiratta    | 12. Sh. Maman Chand     |
| 13. Sh. VP Arora         | 14. Sh. KK Sharma       |
| 15. Sh. BP Singh         | 16. Sh. VK Das          |
| 17. Sh. NC Sahoo         | 18. Sh. Mohan Lal       |
| 19. Sh. S Banerjee       | 20. Sh. Ved Prakash     |
| 21. Sh. DS Shokeen       | 22. Sh. NS Madan        |
| 23. Sh. Roop Chand       | 24. Sh. Mahabir Singh   |
| 25. Sh. Raghubans Behari | 26. Smt. PL Oberoi      |
| 27. Sh. SK Tugnait       | 28. Sh. US Bhindware    |
| 29. Sh. NR Khanna        | 30. Sh. Khushal Chandra |
| 31. Sh. LM Joshi         | 32. Sh. Jagmohan Swarup |
| 33. Sh. Ramesh Chander   | 34. Smt. Vidya Kataria  |
| 35. Sh. Ram Kishan       | 36. Sh. DK Bhutani      |
| 37. Sh. Chander Prakash  | 38. Sh. Kailash Chand   |
| 39. Smt. Smita Ahuja     | 40. Sh. T Tonsing       |
| 41. Sh. Bhagwan Sahay    | 42. Sh. Ravindra Sah    |
| 43. Sh. Mam Chand        | 44. Sh. GC Kansal       |
| 45. Sh. Narain Singh     | 46. Sh. RK Sahni        |
| 47. Sh. Richh Pal Singh  |                         |

2. These appointments are made purely as a stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administration Officer (A)

#### AIR HEADQUARTERS

No. 68, dated 01 Jan 04.—The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-10,500 under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 25 Aug 2003 to 24 Feb 2004 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

S/Sh./Smt.

Yashraj Singh

Manjit Singh

Ram Singh Verma

RKP Pandey

PS Bisht

US Latwal

Ram Prakash

JP Swami

Prem Chand

MMR Bhandari

Rajinder Parshad

CK Rai (Smt.)

Ajit Singh Indora

Ram Swarup

Rattan Singh

Atam Prakash

RL Bhatia

Inder Pal

Indu Balaji (Smt.)

Manjeet Singh

Mohan Lal

UP Mohanan

Arvind Kumar Sinha

ID Murjani (Smt.)

Om Prakash

Santosh Kumar Kaushik

PN Rai

Ranjeet Singh

RC Gautam

Om Prakash

Krishan Lal

Banarsi Dass

Santosh Lata (Smt.)

Raj Rani (Smt.)

Ramesh Chander

K Rajamma (Kum.)

Gautam Malo

Komal Ram Yadav

Usha Dudeja (Smt.)

Duli Chand  
 Subhash Chand  
 Kanheya Lal  
 Sunder Lal  
 Raj Singh  
 Rajendra Prasad  
 Usha Kiran (Smt.)  
 Harish Kumar  
 Rattan Lal Gupta  
 Rajesh Dixit  
 SP Dargan  
 SR Venugopal  
 Nafe Singh  
 Krishna Ram  
 Madhu Bala (Smt.)  
 Sheela Devi (Smt.)  
 Ram Charan  
 Nirmal Birdi (Smt.)  
 Satya Narain  
 Ris Pal  
 Ishwar Singh Bramniya  
 Bimal Ghosh  
 Maina Nathani (Smt.)  
 Man Mohan Suri  
 Om Prakash Singhal

2. These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA  
 Dy Chief Administrative Officer

#### ARMY BRANCH

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 69, dated 02.01.04.—The President is pleased to make the following appointment/Promotion:—

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Sachitanand Singh (14530152P now JC-757823L), 19 May 2003/19 Mar 2003\*

Patil Hanumanta Naik (14531968L now JC-758161A), 01 Sep 2003

Mahendra Prasad Viswas (14532672Y now JC-758166Y), 01 Sep 2003

Hav to be Nb Sub Ck (GD)

P C Tripathy (14554666L now JC-758062X), 01 Aug 2003

Pabitra Mohan Nayak (14554675M now JC-758063A), 01 Aug 2003

Subhash Chandra Rout (14554690F now JC-758064H), 01 Aug 2003

Anjan Kumar Rout (14554768F now JC-758066N), 01 Aug 2003

A Vijaya Kumar (14554750L now JC-758067W), 01 Aug 2003

Ram Prakash Sharma (14548133M now JC-758152Y), 01 Sep 2003

Jageshwar Singh (14555150P now JC-758149Y), 01 Sep 2003

Hav to be Nb Sub Skt

Ajit Pratap Singh (14542812N now JC-758140K), 01 Aug 2003/01 Jul 2003\*

Hari Prakash Singh (14543384M now JC-758142P), 01 Aug 2003

Rajender Singh (14543664A now JC-758146L), 01 Sep 2003

Hav to be Nb Sub Armr

Raj Narain Mahto (14545271H now JC-758069F), 01 Aug 2003

D K Rathi (14545564N now JC-758145H), 01 Sep 2003

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Narayan Ram (14529873M now JC-757556P), 01 Mar 2003/24 Nov 2002\*

Ram Krishna Sinha (14531569F now JC-757940W), 21 May 2003/01 Apr 2003\*

Vinay Kumar Katiyar (14531603W now JC-758087K), 21 Jul 2003/01 Jul 2003\*

Tapan Kumar Mohanty (14531682W now JC-758128H), 01 Aug 2003

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Alam Singh Bisht (14535557K now JC-757778K), 17 Apr 2003/01 Mar 2003\*

Sube Singh (14535792H now JC-757941Y), 01 Jun 2003

Dewanand Thakur (14676145M now JC-757942F), 21 Jun 2003/01 Jun 2003\*

Bhagwan Dass (14536164A now JC-758088M), 26 Jul 2003/01 Jul 2003\*

Ashis Kumar Kundu (14535945F now JC-757943K), 08 Jul 2003/01 Jun 2003\*

Hav to be Nb Sub TCM Radar

Madhusoodanan Nair P R (14534171X now JC-758046A), 01 Jun 2003

Hav to be Nb Sub TCM (GCE)

Sajith Kumar V (14539549H now JC-758045X), 01 Jun 2003

**Hav to be Nb Sub FTR FD**

Sudipta Kumar Roy (14538228Y now JC-758047H), 03 Jul 2003/01 Nov 2002\*

**Hav to be Nb Sub Welder**

Vishwanath Roy (14535707P now JC-758044P), 22 Jul 2003/01 Jun 2003\*

Gulab Singh (14539362W now JC-758048L), 21 Jul 2003/01 Jul 2003\*

Moti Lal Thapa (14540334N Now JC-758091M), 08 Aug 2003/01 Aug 2003\*

Kumar Bahadur Gurung (14540218N now JC-758090K), 01 Aug 2003.

**Hav to be Nb Sub Metal Smith**

Narayan Setty H N (14547720 L now JC-758252K), 15 Jul 2003/20 Mar 2003\*.

**Hav to be Nb Sub Uphol**

Prasanta Biswas (14551909A now JC-757956F), 06 Jun 2003/01 Feb 2003\*.

Bahadur Ram Masahary (14559714K now JC-758089P), 01 Aug 2003.

K Devendra Singha (14559742W now JC-758042K), 09 Jul 2003/01 Jun 2003\*.

**Hav to be Nb Sub Refreg Mech**

Kuna Rama Rao (14589121 M now JC-758041F), 08 Jul 2003/01 Jun 2003\*.

**Hav to be Nb Sub Machinist**

Esraul Haque Ansari (14676324M now JC-758137K), 20 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

**HMT to be Nb Sub Tech A Veh**

Debi Prasad (14580670 L now JC-757963X), 10 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

C Dharma Raj (14578760N now JC-757924Y), 01 Jun 2003.

Rameshwar (14579314N now JC-757926K), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Jagannath Dwibedi (14579562P now JC-757928P), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Rajendra Bahadur Singh (14576874A now JC-757919N), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Dharmendra Singh (14579506W now JC-757927M), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Ramesh Kumar (14578624X now JC-757921L), 01 Jun 2003.

Satyavir Singh (14580712M now JC-757964A), 01 Jun 2003.

Desai Shashikant Sadashiv (14581947L now JC-758006Y), 19 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Chikadeli Arun Shivaram (14580313H now JC-757931P), 04 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Shankar Yadav (14571719P now JC-757905N), 17 May 2003/02 Mar 2003\*.

Bernabas A (14580285F now JC-757930M), 16 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Ramaraj A (14578779M now JC-757979H), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Cherukuri Samba Siva Rao (14582348X now JC-758007F), 30 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Devender Singh (14580150A now JC-757929X), 02 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Ram Pal (14581138L now JC-758005W), 16 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

C Perianayagam (14581951N now JC-758110M), 01 Aug 2003.

S Munikannan (14569114P now JC-758100H), 05 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Arun Bhuyan (14578709 N now JC-757923W), 11 Jun 2003/01 Jun 2003\*.

Vinod Kumar (14565072W now JC-758097N), 02 Aug 2003/01 Jul 2003\*.

Ram Sukh Kaler (14571091X now JC-758102N), 01 Aug 2003.

Hukma Ram Sohu (14573807 X now JC-758105F), 01 Aug 2003.

Unni P D (14577259P now JC-758108P), 04 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Surendra Singh (14580630K now JC-758109X), 01 Aug 2003.

Arvind Kumar Sharma (14571311W now JC-758103W), 02 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Nirmalendu Bakshi (14568804M now JC-758099Y), 01 Aug 2003.

Mahi Pal Singh (14571744N now JC-758104Y), 05 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Sarat Chandra Behera (14567750K now JC-758098W), 01 Aug 2003/01 Jul 2003\*.

Vijay Kumar Yadav (14570470 F now JC-758101L), 02 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Chandran V (14573849W now JC-758101L), 02 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Karanam Venkata Ramana (14577475H now JC-758106K), 02 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

Krishna Kumar V T (14558258X now JC-758096L), 19 Aug 2003/01 Jul 2003\*.

HMT to be Nb Sub Tech Inst

Chander Pal Singh (14602908H now JC-757934H), 23 May 2003/13 Feb 2003\*.

Ramesh C (14603698A now JC-758037Y), 01 Jul 2003.

Prem Sunder Sharma (14603966Y now JC-758038F), 01 Jul 2003.

Ganesh Chandra (14603938K now JC-758073K), 24 Jul 2003/01 Jul 2003\*.

Ramesh Chandra Duhoon (14603984F now JC-758079L), 01 Aug 2001.

Anil Kumar Tripathy (14603988X now JC-758080A), 01 Aug 2003.

Malvendra Singh Shahi (14603992A now JC-758081H), 01 Aug 2003.

Resham Singh (14603970F now JC-758078H), 01 Aug 2003.

Din Dayal Kumar (14603993H now JC-758082L), 01 Aug 2003.

Jagbir (14600959X now JC-758180L), 07 Aug 2003/01 Aug 2003\*.

\*Gtd ante dated seniority.

S K KHURANA,  
Under Secy.

No. 70 dated 5 January 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& Equivalent)

S R Kamtikar (MR-2929-L), 01.04.03 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.03.03.

S C Sood (MR-2273-F), 07.07.03 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.05.03.

Brig (& equivalent to Air Vice Marshal)

P K Sarkar (MR-2551K) (AF-26480K), AMC/PC, 01 Jan 2002.

N K Manchanda (MR-3897A)(AF-26481), AMC/PC, 01 Feb 2002.

Stl. No 1 & 2 inducted from Army to Air).

Col (& equivalent) to Brig (& equivalent)

V P Pathania (MR-3385-N), 18.08.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 03.08.2002.

B K Singh (MR-4457-Y), 12.02.2003 with notional without effect on pay and pension from 04.01.2003.

Lt Col. (& equivalent) to be Col. (& equivalent)

S Srinivasan (MR-3701-F), 08.04.2003 with notional seniority without effect on pay and pension from 26.11.2002.

Major to be Lt Col

Abhiram Verma (MR-07145N) AMC, 27 Mar 2003.

J Debnath (MR-06018M) AMC, 12 Aug 2003.

P B Mukherjee (MR-06136A) AMC, 08 Sep 2003.

Capt to be Major

Alok Vashistha (MR-07172X) AMC, 29 Jun 2003.

To be Major

Naveen Kumar Sharma (MS-13757-F)(MR-07943-F), AMC, 14 Oct 2001 (Mod Notification published in the Gazette of India dated 29.06.2002, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sourav Bandyopadhyay (MS-13400-L)(MR-07932-P), AMC, 09 Feb 2003.

(Mrs.) Harvandan Kaur Bedi (MS-13419-K)(MR-07934-A), AMC, 05 Jan 2001. (Mod Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Chandra Prakash Jha (MS-13152-A)(MR-07938-W), AMC, 30.09.2000. (Mod Notification published in the Gazette of India dated 04.08.2001, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Rajeev Kumar (MS-13928-H)(MR-07935-H) AMC, 29 Jul 2002.

Prosenjit Deb (MS-13179-X)(MR-07939-Y), AMC, 07 Oct 2000. (Mod Notification published in the Gazette of India dated 11.05.2002, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Capt

Indramani Pandey (MR-07560-P), AMC, 05 Feb 2002.

Km. Rakhi Negi (MR-07797-M), AMC, 02 Aug 2003.

Shamik Kr. Paul (MR-07799-X), AMC, 02 Aug 2003.

Renuka Agarwal (MR-07763-Y), AMC, 04 Mar 2003.

Munish Sood (MR-07802-M), AMC, 02 Aug 2003.

Mallela Jaya Sekhar (MR-07810-L), AMC, 02 Aug 2003.

Km. Nidhi Kalra (MR-07698-K), AMC, 04 Mar 2003.

Nalin Bhatia (MR-07798-P), AMC, 02 Aug 2003.

Flt Lt to be Sqd Ldr

Ameet Kumar (MR-07839 N)(25583), AMC, 01 Oct 2003.

**To be Sqn Ldr**

(Mrs.) Medha Ramesh Kulkarni (MS-13153-H)(MR-07929-P) (AF-23481) AMC, 30 Sept 1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 08.09.2001, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

**Fg Offr to be Flt Lt (on Prob)**

M Dwark Sudhan (MR-07337L) (AF-25574), AMC, 23 Jun 2000.

**To be Flt Lt**

Avanish Bharadwaj (MR-07542M) (AF-26465), AMC—05 Feb 2002.

Dishant Tyagi (MR-07639X) (AF-26477K), AMC—16 Jul 2002.

Abhijith Srikumar (MR-07649F) (AF-26478N), AMC—16 Jul 2002.

Ashutosh Arya (MR-07523F) (AF-26463), AMC—05 Feb 2002.

Amit Agrawal (MR-07396M) (AF-26035L), AMC—15 Feb 2001.

(Km) Rashmi More (MR-07477-X)(AF-26044), AMC, 13 Jul 2001.

Vikram Trehan (MR-07466-L)(AF-26042), AMC, 13 Jul 2001.

Vivek Kumar (MR-07524-K)(AF-26464), AMC, 05 Feb 2002.

(Km) Pragya Sharma (MR-07469-Y)(AF-26043), AMC, 13 Jul 2001.

Ritu Mehta (MR-07478-A)(AF-26045), AMC, 13 Jul 2001.

Kumar Abhisheka (MR-07465-H)(AF-26041), AMC, 13 Jul 2001.

A K Garg (MR-07464-A)(AF-26040), AMC, 13 Jul 2001.

M. SRIVASTAVA,  
Brig.  
Dy. DGAFMS (P).

No. 71 dated 6 January 2004—The President is pleased to make the following promotion ;—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**  
**Lt Col to be Substantive Col.**

S K Pareek (IC-31655 Arty), 01 Dec 2000.

P S Ravindra Nath (IC-31712 Inf), 01 Dec 2000.

P Madhavan (IC-31728 Inf), 01 Dec 2000.

Amulya Mohan (IC-34066 Inf), 01 Dec 2000.

Shashank Mehta (IC-34120 Inf), 01 Dec 2000.

P S Ganguli (IC-34135 Inf), 01 Dec 2000.

**Major to be Substantive Lt Col (Time Scale)**

IC-40190 S K Posina AD Arty, 19 Dec 2001.

IC-39385 SJB Dutt Inf, 13 Dec 2001.

IC-41441 P Mathur Sigs, 18 Jun 2001.

IC-41837 A Bahl EME, 20 Dec 2001.

IC-40152 R Malhotra, EME, 19 Dec 2001.

IC-40260 D Singh Int, 19 Dec 2001.

IC-40148 TVA Kumar INF, 19 Dec 2001.

IC-37821 P C Naithani INF, 12 Nov 2001.

IC-39933 D Samal AD Arty, 19 Dec 2001.

IC-37850 S Mallick AC, 12 Nov 2001.

IC-37854 R Mathur AC, 12 Nov 2001.

IC-40051 P S Dhillon AC, 19 Dec 2001.

IC-39595 O P Choudhary AC, 13 June 2001

IC-40201 S Khurana AC, 19 Dec 2001.

IC-39884 T K Paul ASC, 19 Dec 2001.

IC-40230 N Khan ASC, 19 Dec 2001.

IC-40142 J Singh Sigs, 19 Dec 2001.

IC-40225 S Pol Inf, 19 Dec 2001.

IC-39912 K Singh Sigs, 19 Dec 2001.

IC-40255 R K Singh ASC, 19 Dec 2001.

IC-40187 K Singh ASC, 19 Dec 2001.

IC-40127 S Singh Inf, 19 Dec 2001.

IC-37806 M N Babu Sigs, 12 Nov 2001.

SL-02749 N N J Nair SL(QM), 27 July 2001.

SL-02745 L S Ambarayan SL(QM), 27 July 2001.

IC-40103 R S Sekhon AC, 19 Dec 2001.

IC-40117 A J Singh AC, 19 Dec 2001.

IC-39852 J Mohan AEC, 13 Aug 2001.

IC-40246 T K Kaundal Inf, 19 Dec 2001.

IC-40216 S Thomas Engrs, 19 Dec 2001.

IC-39856 P K Madan AEC, 13 Jun 2001.

IC-39892 K Prasad Inf, 19 Dec 2001.

IC-39923 A Kant Inf, 19 Dec 2001.

IC-41831 K N V V Vijay Kumar Engrs, 20 Dec 2001.

IC-39674 L K Borah ASC, 13 Jun 2001.

IC-39878 S S Goraya ASC, 19 Dec 2001.

IC-41834 R K Sharma Sigs, 20 Dec 2001.

SI-02840 S P Saini APTC, 27 July 2001.

SI-02845 K Singh APTC, 27 July 2001.

S. S. SINHA  
Dy. Dir.  
DAMS-8A

#### AIR HEADQUARTERS

No. 72, dated 1st January 2004—The President is pleased to promote the following AD (OL) (Group 'B' Gazetted) of AFHQ/IS Organisation Service as AD (OL) Gde I (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500–12000, on ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against each till further orders or upto 30 Mar 2004 or till availability of regular incumbents, whichever is earlier :—

Sl. No. Name & Date

(S/Shri)

(a) Smt. Sushila Paliwal, 24 Oct 2003.

(b) J C Sethi, 27 Oct 2003.

The promotion shall be subject to the following conditions:—

(a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.

(b) The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of AD (OL) Gde I.

The President is pleased to promote Shri Ramakrishnan K V, Personal Assistant as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500–10500 in AFHQ Stenographers' Service with effect from 23 Jun 2003 (FN).

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer

No. 73, dated 7 January 2004—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

##### AE BRANCH

To be substantive Air Commadore

GC (A/A/C) S K Chatterjee (12441) AE(M), 9 April 2001.

GC (A/A/C) S B Parashar (12442) AE(M), 9 April 2001.

GC (A/A/C) K S Yadav (12444) AE(M), 9 April 2001.

GC (A/A/C) R P Batra (11199) AE(L), 2 July 2001.

GC (A/A/C) J P Gulati (Retd) (10281) AE(L), 17 Sep 2001.

GC (A/A/C) A K Khanna (Retd) (10401) AE(L), 17 Sep 2001.

GC (A/A/C) V N Katyal (Retd) (11905) AE(L), 1 Nov 2001.

GC (A/A/C) S G Allimatti (Retd) (11912) AE(L), 1 Nov 2001.

GC (A/A/C) R P Singh (12639) AE(M), 3 Dec 2001.

GC (A/A/C) N S Raveendran (Retd) (12614) AE(L), 4 Feb 2002.

GC (A/A/C) V S Sunder (12618) AE(M), 4 Feb 2002.

##### ADM BRANCH

To be Substantive Gp Capt

N K Kapila (13638) Adm, 19 Dec 2001/1 Nov 2001 (NS).

(His name will appear between Gp Capt H E Srivastava (13888) Admn and Gp Capt, N K Arora (13887) Admn in the combined gradation list).

A K Adhikari (13889) Admn, 19 Dec 2001.

(His name will appear between Gp Capt N K Arora (13887) Admn and Gp Capt, A Javeed (14386) Adm in the combined gradation list).

##### FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

A K Tiwary, VSM (12194) F(P), 1 Aug 2003.

##### MET BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Select)

R P Shivhare (14424) Met, 1 June 2003.

G P Sharma (14427) Met, 1 June 2003.

S K Raina (14862) Met, 1 July 2003.

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

To be substantive Wg Cdrs (Select)

A K Gupta (14743) Adm, 1 Oct 2000.

A K Maini (15912) Adm, 1 Apr 2001.

(His name will appear below Wg Cdr S K Chakrabarty (15910) Adm in the combined gradation list).

H Latif (15749) Adm, 1 Aug 2001.

A Kumar (15905) Adm, 1 Aug 2001.

H Tiagi (16099) Adm, 1 Aug 2001.

R Mathur (16100) Adm, 1 Aug 2001.

R Ganesh (16103) Adm, 1 Oct 2001.

S K Sharma (16106) Adm, 1 Oct 2001.

S V Pai (16107) Adm, 1 Oct 2001.

A Dass (16109) Adm, 1 Nov 2001.

N Bhardwaj (16110) Adm, 1 Nov 2001.



S K Parhi (16111) Adm, 16 Jan 2002.

C S Havildar (16256) Adm, 9 Feb 2002.

P K Singh (16259), 1 March 2002.

S N Naidu (16262) Adm, 1 March 2002.

A K Patra (16263) Adm, 1 April 2002.

S Mazumdar (16264) Adm, 1 May 2002.

H K Dhiman (16266) Adm, 1 May 2002.

USHA NEELAKANDAN  
Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)

#### (ARMY BRANCH)

No. 74, dated 5th January 2004.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 21-10-2002 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date AI 74/76 as amended:—

#### (REGULAR ARMY)

#### (PERMANENT COMMISSION)

#### To be Capt (On Prob)

Rajeev Kumar (MS-13928H)(MR-07935H), AMC, 29-01-1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 29.07.1998. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Harvandan Kaur Bedi (MS-13419K)(MR-07934A), AMC, 05-01-1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 05.01.1997. (This includes 24 months of antedate of seniority for Post Graduate Qualification on MD (Psychiatry) which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23.12.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 04.12.2001 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date AI 74/76 as amended:—

#### (REGULAR ARMY)

#### (PERMANENT COMMISSION)

#### To be Capt (On Prob)

Prosenjit Deb (MS-13179X)(MR-07939Y), AMC, 07.04.1997 with seniority for pay and promotion w.e.f. 7.10.1996. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will not count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette

of India dated 02.06.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 24.09.2001 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date AI 74/76 as amended:—

#### (REGULAR ARMY)

#### (PERMANENT COMMISSION)

#### To be Capt (On Prob)

Naveen Kumar Sharma (MS-13757F)(MR-07943F), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 14.10.1997. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25.03.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sourav Bandyopadhyay (MS-13400L)(MR-07932P), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 9.02.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.01.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Chandra Prakash Jha (MS-13152A)(MR-07938W), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 30.09.1996. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 13.12.1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

(Mrs.) Medha Ramesh Kulkarni (MS-13153H)(MR-07929P), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 30.09.1994. (This includes 24 months of antedate of seniority for MS (E.N.T.), which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23.09.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 20.01.1998 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date AI 74/76 as amended:—

#### (REGULAR ARMY)

#### (PERMANENT COMMISSION)

#### To be Sqn Ldr (On Prob)

Mrs. Ratna Bulusu (MS-13235L)(Ex-11706)(AF-18199F), Now (MR-07135K), AMC, 24.08.1996 with seniority for pay and promotion w.e.f. 28.01.1984. (This includes 10 years 28 days previous full pay commission service plus 30 months antedate given in the first spell which will not count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.07.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled). The period of ante date seniority will not carry back pay in any case.

M. SRIVASTAVA  
Brig.  
Dy. DGAFMS(P)

No. 75, dated the 01st January 2004.—The President is pleased to retire Shri S.N. Tripathi CSS, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.11.2003 (AN) on attaining the age of superannuation.

V SARASWATHY  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 76, dated the 7th January 2004.—The under mentioned officers awarded the following punishment by GCM.

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

IC-42744 Maj Beant Singh, Engrs.

To be cashiered,

—03 December 2001.

IC-52497 Capt Sachin Puri, ADA.

- (a) To Forfeit three years service for the purpose of promotion.
- (b) To Forfeit five years past service for the purpose of pension.
- (c) To be severely reprimanded.

—25 January 2003.

SS-39455 Lt Patil Paradeep Kumar B, Arty.

- (a) To Forfeit one year service for the purpose of promotion.
- (b) To Forfeit one year past service for the purpose of pension.
- (c) To Forfeit one year past service for the purpose of increased pay.
- (d) To be severely reprimanded.

—24 January 2003.

KS VERMA  
Jt. Director  
MS 8C

No. 77, dated the 7th January 2004.—The President is pleased to make the following appointment.

#### CORRIGENDUM

#### Permanent Commission (Special List)

Date of seniority of No. 6649601X Hav/Clk Gurdeep Singh, ASC (Sup) (SL-4736K), QM who was granted Permanent Commission in the Special List in the rank of Lt on 13 Jul 2002 on the Court Judgement, against 1989 quota of vacancies, has been changed from 13 Jul 2002 to 12 Apr 90 alongwith coursemates of 1989 quota of vacancies. Accordingly, his seniority is fixed below No. 6909872L Hav BLN Prasad, AOC (SL-3936N, 2/Lt, QM) and above No. 104903A Dfr Mali Ram Nunia (Armed Corps, SL-3937W 2/Lt, QM) of 1989 quota of vacancies whose name appear in the Gazette No. 459 dated 02 Jun 95 published on 15 Jul 95.

2. The name of the above officer appearing in Gazette Notification No. 12 dated 22 Mar 2003 published on 22 Mar 2003 is hereby deleted.

VIJAY SAHGAL  
Lt. Col.  
AMS 8B

#### (AIR BRANCH)

No. 78, dated the 7th January 2004.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### CORRIGENDUM

Following amendment is made in respect of Wg Cdr A Kumar (15905), Adm:—

Entries relating to grant of Substantive rank w.e.f. -1.04.01 published in Gazette of India on 10 Aug 02 be deleted in toto.

USHA NEELAKANDAN  
Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)